

### 1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां\*

(₹ करोड़)

| मद                                      | 2023           | 2024           |                | घट-बढ़         |               |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                         | नवंबर 17       | नवंबर 8        | नवंबर 15       | समाह           | वर्ष          |
|                                         | 1              | 2              | 3              | 4              | 5             |
| <b>1 जारी नोट</b>                       | <b>3323876</b> | <b>3531663</b> | <b>3526698</b> | <b>-4965</b>   | <b>202822</b> |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 3323860        | 3531647        | 3526683        | -4963          | 202823        |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 16             | 16             | 15             | -2             | -1            |
| <b>2 जमा राशियां</b>                    |                |                |                |                |               |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 100            | 100            | 101            | 0              | 1             |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 2.3 राज्य सरकारें                       | 42             | 42             | 43             | 0              | 1             |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 910823         | 985702         | 1008450        | 22748          | 97627         |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 8051           | 8076           | 8248           | 172            | 197           |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 54131          | 55699          | 55763          | 64             | 1632          |
| 2.7 अन्य                                | 548100         | 581909         | 466303         | -115606        | -81797        |
| <b>3 अन्य देयताएं</b>                   | <b>1615938</b> | <b>1916373</b> | <b>1829501</b> | <b>-86871</b>  | <b>213563</b> |
| <b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>           | <b>6461062</b> | <b>7079564</b> | <b>6895106</b> | <b>-184458</b> | <b>434044</b> |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 4428802        | 4976576        | 4846996        | -129580        | 418195        |
| 2 सोना                                  | 383413         | 572194         | 554921         | -17274         | 171508        |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 1373388        | 1310612        | 1268291        | -42321         | -105097       |
| <b>4 ऋण और अग्रिम</b>                   |                |                |                |                |               |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | 0              | 0              | 11817          | 11817          | 11817         |
| 4.2 राज्य सरकारें                       | 17338          | 37124          | 28634          | -8490          | 11296         |
| 4.3 नाबार्ड                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 131042         | 15981          | 6623           | -9358          | -124419       |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | -              | -              | -              | -              | -             |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | -              | -              | -              | -              | -             |
| 4.8 अन्य                                | 112624         | 148148         | 158593         | 10445          | 45969         |
| <b>5 खरीदे और भुनाए गए बिल</b>          |                |                |                |                |               |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | -              | -              | -              | -              | -             |
| 5.2 खजाना                               | -              | -              | -              | -              | -             |
| <b>6 निवेश</b>                          | <b>2064</b>    | <b>2064</b>    | <b>2064</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>7 अन्य आस्तियां</b>                  | <b>12390</b>   | <b>16865</b>   | <b>17169</b>   | <b>303</b>     | <b>4779</b>   |

\* डाटा अन्ततिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकनकी वजह से है।

### 2. विदेशी मुद्रा भंडार\*

| मद                                        | नवंबर 15, 2024 को |                | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |                |                          |                |               |                |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                           |                   |                | समाह                       |                | मार्च 2024 की समाप्ति पर |                | वर्ष          |                |
|                                           | ₹ करोड़           | मिलि. अम. डॉलर | ₹ करोड़                    | मिलि. अम. डॉलर | ₹ करोड़                  | मिलि. अम. डॉलर | ₹ करोड़       | मिलि. अम. डॉलर |
|                                           | 1                 | 2              | 3                          | 4              | 5                        | 6              | 7             | 8              |
| <b>1 कुल भंडार</b>                        | <b>5552871</b>    | <b>657892</b>  | <b>-148074</b>             | <b>-17761</b>  | <b>161615</b>            | <b>11473</b>   | <b>594710</b> | <b>62495</b>   |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां #              | 4809631           | 569835         | -129640                    | -15548         | 47787                    | -1116          | 426116        | 43444          |
| 1.2 स्वर्ण                                | 554921            | 65746          | -17274                     | -2068          | 115602                   | 13071          | 171507        | 19704          |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                     | 152470            | 18064          | -747                       | -94            | 1247                     | -68            | 1482          | -67            |
| 1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति | 35849             | 4247           | -414                       | -51            | -3020                    | -415           | -4396         | -586           |

\* अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकनकी वजह से है।

# निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल है; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि।

### 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

| नवंबर 15, 2024 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 1011562 करोड़ | 2024    |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                    | नवंबर 2 | नवंबर 3 | नवंबर 4 | नवंबर 5 | नवंबर 6 | नवंबर 7 | नवंबर 8 | नवंबर 9 | नवंबर 10 | नवंबर 11 | नवंबर 12 | नवंबर 13 | नवंबर 14 |
|                                                                                                                    | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                                       | 1050760 | 1044642 | 1026975 | 1022177 | 1014819 | 1012929 | 993113  | 983536  | 982848   | 1013684  | 1006560  | 993150   | 1034434  |
| औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                                  | 103.9   | 103.3   | 101.5   | 101.0   | 100.3   | 100.1   | 98.2    | 97.2    | 97.2     | 100.2    | 99.5     | 98.2     | 102.3    |

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

| मद                                      | नवंबर 1, 2024<br>को बकाया | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |                      |         |                      |                      |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
|                                         |                           | पखवाड़ा                    | वित्त वर्ष में अब तक |         | वर्ष-दर-वर्ष         |                      |
|                                         |                           |                            | 2023-24              | 2024-25 | 2023                 | 2024                 |
|                                         | 1                         | 2                          | 3                    | 4       | 5                    | 6                    |
| 1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं      |                           |                            |                      |         |                      |                      |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां | 290287                    | -3716                      | 16568                | -4184   | 45403                | 47600                |
| 1.2 बैंकों से उधार                      | 135893                    | 5117                       | 128404               | -46536  | 144273               | -59710               |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं         | 24605                     | 1348                       | 14309                | -47846  | 19837                | -48228               |
| 2 अन्य के प्रति देयताएं                 |                           |                            |                      |         |                      |                      |
| 2.1 कुल जमाराशियां                      | 22043537<br>(21972024)    | 235205                     | 1668176<br>(1536316) | 1568311 | 2345766<br>(2213905) | 2331448<br>(2391795) |
| 2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                  |                           | 1.1                        | 9.2<br>(8.5)         | 7.7     | 13.5<br>(12.7)       | 11.8<br>(12.2)       |
| 2.1.1 मांग                              | 2562700                   | 18092                      | 108311               | 118846  | 232183               | 273958               |
| 2.1.2 मीयादी                            | 19480838                  | 217113                     | 1559865              | 1449464 | 2113583              | 2057490              |
| 2.2 उधारियां                            | 863454                    | -1943                      | 387639               | 85512   | 345219               | 30487                |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं         | 948845                    | -1771                      | 92297                | 11417   | 168820               | 66897                |
| 3 रिज़र्व बैंक से उधार                  | 9032                      | 1276                       | -101269              | -213684 | -31041               | -54784               |
| 4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि | 1084927                   | 9117                       | 128772               | 64011   | 110558               | 55985                |
| 4.1 उपलब्ध नकदी                         | 92957                     | 1689                       | 4443                 | 3524    | -22133               | -1748                |
| 4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि        | 991970                    | 7429                       | 124329               | 60487   | 132691               | 57733                |
| 5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां       |                           |                            |                      |         |                      |                      |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष              | 206448                    | -3589                      | -4995                | 8121    | -1041                | 18020                |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि  | 21935                     | 3987                       | 5770                 | 9579    | 18738                | -8700                |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                    | 43605                     | -3289                      | 10571                | -4763   | 6025                 | -8150                |
| 5.4 अन्य आस्तियां                       | 60770                     | -4251                      | 26888                | -54653  | 35689                | -33248               |
| 6 निवेश                                 | 6557353<br>(6503511)      | 67971                      | 697737<br>(590203)   | 450795  | 1031207<br>(923673)  | 444468<br>(498160)   |
| 6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                  |                           | 1.0                        | 12.9<br>(10.9)       | 7.4     | 20.3<br>(18.2)       | 7.3<br>(8.3)         |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में             | 6556790                   | 68149                      | 697305               | 451181  | 1030777              | 445164               |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में      | 563                       | -178                       | 432                  | -386    | 430                  | -696                 |
| 7 बैंक ऋण                               | 17439892<br>(16978858)    | 202218                     | 1909290<br>(1325196) | 1007728 | 2658293<br>(2074198) | 1855366<br>(1978427) |
| 7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                  |                           | 1.2                        | 14.0<br>(9.7)        | 6.1     | 20.6<br>(16.0)       | 11.9<br>(13.2)       |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                          | 30055                     | 11400                      | 2898                 | 6974    | -15576               | 7251                 |
| 7 क.2 खाद्यतर ऋण                        | 17409837                  | 190817                     | 1906392              | 1000754 | 2673869              | 1848115              |
| 7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट         | 17126165                  | 204842                     | 1889070              | 991862  | 2623095              | 1812188              |
| 7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए                 | 67918                     | -165                       | 7815                 | 7451    | 12044                | 20668                |
| 7 ख.3 भुनाए गए                          | 207786                    | -2454                      | 21982                | 10428   | 29852                | 22893                |
| 7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए               | 15457                     | -368                       | -3869                | -954    | -1537                | -218                 |
| 7 ख.5 भुनाए गए                          | 22566                     | 363                        | -5708                | -1058   | -5160                | -165                 |

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।  
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

| मद/सामाज्य सामाह                                          | 2023       | 2024       |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                           | नवंबर 17   | अक्टूबर 18 | अक्टूबर 25 | नवंबर 1    | नवंबर 8    | नवंबर 15   |
|                                                           | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| अनुपात                                                    |            |            |            |            |            |            |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                                  | 4.50       | 4.50       | 4.50       | 4.50       | 4.50       | 4.50       |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                                    | 18.00      | 18.00      | 18.00      | 18.00      | 18.00      | 18.00      |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                       | 5.12       | 4.95       | ..         | 4.94       | ..         | ..         |
|                                                           | (5.09)     | (4.93)     | ..         | (4.92)     | ..         | ..         |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                         | 77.04      | 77.16      | ..         | 77.27      | ..         | ..         |
|                                                           | (79.49)    | (79.04)    | ..         | (79.12)    | ..         | ..         |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                               | 92.25      | 63.60      | ..         | 67.12      | ..         | ..         |
|                                                           | (121.00)   | (60.42)    | ..         | (64.26)    | ..         | ..         |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                      | 30.54      | 29.57      | ..         | 29.60      | ..         | ..         |
|                                                           | (30.89)    | (29.76)    | ..         | (29.75)    | ..         | ..         |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                            | 37.05      | 30.16      | ..         | 30.44      | ..         | ..         |
|                                                           | (40.72)    | (28.72)    | ..         | (28.74)    | ..         | ..         |
| दरें                                                      |            |            |            |            |            |            |
| नीतिगत रेपो दर                                            | 6.50       | 6.50       | 6.50       | 6.50       | 6.50       | 6.50       |
| नियत रिवर्स रेपो दर                                       | 3.35       | 3.35       | 3.35       | 3.35       | 3.35       | 3.35       |
| स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर *                           | 6.25       | 6.25       | 6.25       | 6.25       | 6.25       | 6.25       |
| सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                          | 6.75       | 6.75       | 6.75       | 6.75       | 6.75       | 6.75       |
| बैंक दर                                                   | 6.75       | 6.75       | 6.75       | 6.75       | 6.75       | 6.75       |
| आधार दर                                                   | 8.95/10.10 | 9.10/10.40 | 9.10/10.40 | 9.10/10.40 | 9.10/10.40 | 9.10/10.40 |
| एमसीएलआर (एक दिवसीय)                                      | 7.95/8.50  | 8.15/8.45  | 8.15/8.45  | 8.15/8.45  | 8.15/8.45  | 8.15/8.45  |
| सावधि जमा दर > 1 वर्ष                                     | 6.00/7.25  | 6.00/7.25  | 6.00/7.25  | 6.00/7.25  | 6.00/7.25  | 6.00/7.25  |
| बचत जमाराशि दर                                            | 2.70/3.00  | 2.70/3.00  | 2.70/3.00  | 2.70/3.00  | 2.70/3.00  | 2.70/3.00  |
| मांग मुद्रा दर (भारत आसत)                                 | 6.78       | 6.43       | 6.63       | 6.50       | 6.39       | 6.42       |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                         | 6.94       | 6.45       | 6.48       | 6.51       | 6.44       | 6.44       |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                        | 7.10       | 6.55       | 6.60       | 6.64       | 6.63       | 6.62       |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                        | 7.13       | 6.54       | 6.60       | 6.60       | 6.60       | 6.61       |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)                  | 7.21       | 6.78       | 6.81       | 6.81       | 6.77       | 6.83       |
| संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया @                          |            |            |            |            |            |            |
| भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 83.26      | 84.07      | 84.08      | 84.09      | 84.38      | 84.41      |
| भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 90.36      | 91.17      | 90.96      | 91.25      | 90.92      | 89.06      |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह                    | 0.69       | 1.47       | 1.49       | 1.40       | 1.45       | 1.62       |
| 3-माह                                                     | 1.02       | 1.70       | 1.69       | 1.64       | 1.59       | 1.68       |
| 6-माह                                                     | 1.42       | 1.99       | 2.01       | 2.00       | 1.92       | 1.97       |

\* प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका / डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

| मद                                                 | निम्न को बकाया         |                        | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |              |                      |      |                      |              |              |      |                      |                |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|------|----------------------|--------------|--------------|------|----------------------|----------------|
|                                                    | 2024                   |                        | पखवाड़ा                    |              | वित्त वर्ष में अब तक |      |                      |              | वर्ष-दर-वर्ष |      |                      |                |
|                                                    |                        |                        |                            |              | 2023-24              |      | 2024-25              |              | 2023         |      | 2024                 |                |
|                                                    | मार्च 31               | नवंबर 1                | राशि                       | %            | राशि                 | %    | राशि                 | %            | राशि         | %    | राशि                 | %              |
|                                                    | 1                      | 2                      | 3                          | 4            | 5                    | 6    | 7                    | 8            | 9            | 10   | 11                   | 12             |
| एम3                                                | 24831618<br>(24939860) | 26476902<br>(26548415) | 260192<br>(259133)         | 1.0<br>(1.0) | 1471753              | 6.6  | 1645284<br>(1608555) | 6.6<br>(6.4) | 2357069      | 11.0 | 2661389<br>(2601042) | 11.2<br>(10.9) |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)                            |                        |                        |                            |              |                      |      |                      |              |              |      |                      |                |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 3410276                | 3456892                | 41660                      | 1.2          | -69955               | -2.1 | 46617                | 1.4          | 123411       | 4.0  | 250412               | 7.8            |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि                     | 2586888                | 2705097                | 17110                      | 0.6          | 110265               | 4.8  | 118209               | 4.6          | 233122       | 10.6 | 274234               | 11.3           |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि                   | 18739918<br>(18848160) | 20215212<br>(20286725) | 200012<br>(198954)         | 1.0<br>(1.0) | 1434928              | 8.6  | 1475294<br>(1438565) | 7.9<br>(7.6) | 1997088      | 12.4 | 2111319<br>(2050971) | 11.7<br>(11.2) |
| 1.4 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि              | 94536                  | 99701                  | 1409                       | 1.4          | -3485                | -4.5 | 5165                 | 5.5          | 3448         | 4.9  | 25425                | 34.2           |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                      |                        |                        |                            |              |                      |      |                      |              |              |      |                      |                |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 7512016<br>(7603571)   | 8019784<br>(8073626)   | 157517<br>(149770)         | 2.0<br>(1.9) | 258929               | 3.6  | 507768<br>(470055)   | 6.8<br>(6.2) | 815689       | 12.3 | 595322<br>(541630)   | 8.0<br>(7.2)   |
| 2.1.1 रिजर्व बैंक                                  | 1193213                | 1211153                | 78720                      |              | -334623              |      | 17940                |              | -110483      |      | 94650                |                |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 6318803<br>(6410358)   | 6808631<br>(6862473)   | 78797<br>(71050)           | 1.2<br>(1.0) | 593552               | 10.4 | 489828<br>(452115)   | 7.8<br>(7.1) | 926172       | 17.2 | 500672<br>(446980)   | 7.9<br>(7.0)   |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 16672145<br>(17202832) | 17730467<br>(18191501) | 190843<br>(186232)         | 1.1<br>(1.0) | 1312725              | 9.1  | 1058322<br>(988670)  | 6.3<br>(5.7) | 2085708      | 15.3 | 1988106<br>(1865046) | 12.6<br>(11.4) |
| 2.2.1 रिजर्व बैंक                                  | 14406                  | 9394                   | 218                        |              | -21312               |      | -5013                |              | -7441        |      | 4157                 |                |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 16657739<br>(17188426) | 17721074<br>(18182108) | 190625<br>(186014)         | 1.1<br>(1.0) | 1334037              | 9.3  | 1063335<br>(993682)  | 6.4<br>(5.8) | 2093150      | 15.3 | 1983949<br>(1860889) | 12.6<br>(11.4) |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 5543700                | 5885472                | -47609                     | -0.8         | 225172               | 4.6  | 341773               | 6.2          | 667373       | 14.9 | 748535               | 14.6           |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 33432                  | 34833                  | 0                          | 0            | 1654                 | 5.5  | 1401                 | 4.2          | 2728         | 9.3  | 2894                 | 9.1            |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं       | 4929674<br>(5443674)   | 5193654<br>(5637017)   | 40560<br>(29260)           | 0.8<br>(0.5) | 326727               | 7.8  | 263980<br>(193344)   | 5.4<br>(3.6) | 1214429      | 36.7 | 673467<br>(557062)   | 14.9<br>(11.0) |
| 2.5.1 रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं         | 1789875                | 1904309                | -22045                     | -1.1         | -49443               | -3.1 | 114434               | 6.4          | 272056       | 21.5 | 366187               | 23.8           |

नोट: कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

| मद                                                              | निम्न को बकाया |          | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |      |                      |      |         |     |              |      |         |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|------|----------------------|------|---------|-----|--------------|------|---------|------|
|                                                                 | 2024           |          | सप्ताह                     |      | वित्त वर्ष में अब तक |      |         |     | वर्ष-दर-वर्ष |      |         |      |
|                                                                 |                |          |                            |      | 2023-24              |      | 2024-25 |     | 2023         |      | 2024    |      |
|                                                                 | मार्च 31       | नवंबर 15 | राशि                       | %    | राशि                 | %    | राशि    | %   | राशि         | %    | राशि    | %    |
|                                                                 | 1              | 2        | 3                          | 4    | 5                    | 6    | 7       | 8   | 9            | 10   | 11      | 12   |
| आरक्षित मुद्रा                                                  | 4631446        | 4732094  | 16778                      | 0.4  | 16410                | 0.4  | 100648  | 2.2 | 244104       | 5.9  | 328925  | 7.5  |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3)                                             |                |          |                            |      |                      |      |         |     |              |      |         |      |
| 1.1 संचलन में करेंसी                                            | 3511461        | 3561863  | -4963                      | -0.1 | -22721               | -0.7 | 50402   | 1.4 | 137374       | 4.3  | 206063  | 6.1  |
| 1.2 रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि                         | 1025449        | 1072461  | 22984                      | 2.2  | 42528                | 4.6  | 47012   | 4.6 | 103074       | 11.8 | 99456   | 10.2 |
| 1.3 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि                           | 94536          | 97771    | -1242                      | -1.3 | -3397                | -4.4 | 3234    | 3.4 | 3655         | 5.2  | 23406   | 31.5 |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                                   |                |          |                            |      |                      |      |         |     |              |      |         |      |
| 2.1 रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 1193213        | 1308855  | 56649                      |      | -348803              |      | 115642  |     | -123724      |      | 206532  |      |
| 2.1.1 रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 1186655        | 1280264  | 65139                      |      | -365349              |      | 93608   |     | -135379      |      | 195236  |      |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | -46147         | -194276  | 19689                      |      | 158806               |      | -148129 |     | 95221        |      | -258639 |      |
| 2.2.1 बैंकों पर रिजर्व बैंक के निवल दावे                        | -60553         | -203425  | 19760                      |      | 180115               |      | -142872 |     | 104643       |      | -262548 |      |
| 2.3 रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 5240824        | 5399823  | -146783                    | -2.6 | 225869               | 4.9  | 158999  | 3.0 | 497013       | 11.5 | 586599  | 12.2 |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                         | 33432          | 35180    |                            |      | 1654                 | 5.5  | 1748    | 5.2 | 2728         | 9.3  | 3240    | 10.1 |
| 2.5 रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता                          | 1789875        | 1817486  | -87223                     | -4.6 | 21115                | 1.3  | 27611   | 1.5 | 227134       | 16.4 | 208806  | 13.0 |

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

| दिनांक         | चलनिधि समायोजन सुविधा |             |                     |                            |        |        | स्थायी चलनिधि सुविधाएं | ओएमओ (एकमुश्त) |      | निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-)<br>(1+3+5+7+9-2-4-6-8) |
|----------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------------|--------|--------|------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------|
|                | रेपो                  | रिवर्स रेपो | परिवर्तनशील रेपो दर | परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर | एमएसएफ | एसडीएफ |                        | विक्रय         | क्रय |                                                       |
|                | 1                     | 2           | 3                   | 4                          | 5      | 6      |                        | 8              | 9    |                                                       |
| नवंबर 11, 2024 | -                     | -           | -                   | 61960                      | 6627   | 129417 | -                      | -              | -    | -184750                                               |
| नवंबर 12, 2024 | -                     | -           | -                   | 29150                      | 3373   | 103697 | -                      | -              | -    | -129474                                               |
| नवंबर 13, 2024 | -                     | -           | -                   | 49732                      | 8077   | 65540  | -                      | -              | -    | -107195                                               |
| नवंबर 14, 2024 | -                     | -           | -                   | 8405                       | 1659   | 185021 | -                      | -              | -    | -191767                                               |
| नवंबर 15, 2024 | -                     | -           | -                   | -                          | 2124   | 160722 | -                      | -              | -    | -158598                                               |
| नवंबर 16, 2024 | -                     | -           | -                   | -                          | 1073   | 131150 | -                      | -              | -    | -130077                                               |
| नवंबर 17, 2024 | -                     | -           | -                   | -                          | 125    | 105669 | -                      | -              | -    | -105544                                               |

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा.

## 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                           | 2023   |         | 2024   |         | वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन |                    |              |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------|
|                                                              | सितंबर | अक्टूबर | सितंबर | अक्टूबर | पिछले महीने की तुलना में          | मार्च की तुलना में | वर्ष-दर-वर्ष |
|                                                              | 1      | 2       | 3      | 4       | 5                                 | 6                  | 7            |
| 1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)                          | 184.1  | 185.3   | 194.2  | 196.8   | 1.3                               | 5.9                | 6.2          |
| 1.1 ग्रामीण                                                  | 185.8  | 187.0   | 196.7  | 199.5   | 1.4                               | 6.2                | 6.7          |
| 1.2 शहरी                                                     | 182.2  | 183.4   | 191.4  | 193.7   | 1.2                               | 5.5                | 5.6          |
| 2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) | 137.5  | 138.4   | 143.3  | ..      | ..                                | ..                 | ..           |
| 3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)                            | 151.8  | 152.5   | 154.6  | 156.1   | 1.0                               | 3.1                | 2.4          |
| 3.1 प्राथमिक वस्तुएं                                         | 183.6  | 185.3   | 195.7  | 200.3   | 2.4                               | 9.3                | 8.1          |
| 3.2 ईंधन और बिजली                                            | 153.1  | 155.5   | 146.9  | 146.5   | -0.3                              | -3.7               | -5.8         |
| 3.3 विनिर्मित उत्पाद                                         | 140.4  | 140.4   | 141.8  | 142.5   | 0.5                               | 1.7                | 1.5          |

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, श्रम ब्यूरो।

## 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ करोड़) | पखवाड़े के दौरान       |                       |
|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
|                |                         | जारी राशि<br>(₹ करोड़) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                | 1                       | 2                      | 3                     |
| नवंबर 01, 2024 | 465475                  | 9730                   | 7.02 - 7.83           |
| नवंबर 15, 2024 | 489838                  | 46552                  | 6.98 - 7.85           |

## 11. वाणिज्यिक पत्र

| समाप्त पखवाड़ा   | बकाया राशि<br>(₹ करोड़) | पखवाड़े के दौरान       |                       |
|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
|                  |                         | जारी राशि<br>(₹ करोड़) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                  | 1                       | 2                      | 3                     |
| अक्टूबर 31, 2024 | 445105                  | 66160                  | 6.99 - 12.53          |
| नवंबर 15, 2024   | 448863                  | 50772                  | 6.99 - 13.77          |

## 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

| मद                       | समाप्त सप्ताह  |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                          | नवंबर 17, 2023 | नवंबर 08, 2024 | नवंबर 15, 2024 |
|                          | 1              | 2              | 3              |
| 1 मांग मुद्रा            | 15896          | 19243          | 13985          |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा     | 6487           | 1706           | 4486           |
| 3 त्रिपक्षीय रेपो        | 658729         | 768911         | 837328         |
| 4 बाजार रेपो             | 591545         | 587924         | 601587         |
| 5 कॉरपोरेट बांड में रेपो | 5898           | 5481           | 5371           |

## 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

| नवंबर 15, 2024 को | प्रमुख धारक |                   |               | कुल    |
|-------------------|-------------|-------------------|---------------|--------|
|                   | बैंक        | प्राथमिक व्यापारी | राज्य सरकारें |        |
|                   | 1           | 2                 | 3             |        |
| 91-दिवसीय         | 2891        | 8257              | 84060         | 176760 |
| 182-दिवसीय        | 38535       | 29947             | 12265         | 161765 |
| 364-दिवसीय        | 77807       | 110223            | 35837         | 394837 |
| सीएमबी            | -           | -                 | -             | -      |

## 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

| मद               | जुटाई गई सकल राशि              |                                |         | जुटाई गई निवल राशि             |                                |         |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
|                  | 2024-25<br>(नवंबर 15, 2024 तक) | 2023-24<br>(नवंबर 17, 2023 तक) | 2023-24 | 2024-25<br>(नवंबर 15, 2024 तक) | 2023-24<br>(नवंबर 17, 2023 तक) | 2023-24 |
|                  | 1                              | 2                              | 3       | 4                              | 5                              | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 894697                         | 1081000                        | 1543000 | 545271                         | 868311                         | 1102871 |
| 2. राज्य सरकारें | 485346                         | 488911                         | 1007058 | 321125                         | 328132                         | 717140  |

WSS षे ि ए सं पनाएं तथ उन पर आधारित क वपरणां ि WSS ततपु ि ततक ि (<https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/publications/a-handbook-on-rbi-s-weekly-statistical-supplement-15762>) म उप ध ह ।

समरूंख ि आंक डष ंटरनषट पर <https://data.rbi.org.in/> म उप ध ह ।

ंरी जरी. वि. ननए , निदषशक द्ारा भारतरीय रि वव ंक , शहीद भगतसिंह ेग , फोद , ुई - 400 001 की ओर से संपादित एं परकाशित हैं ।